

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 40
Number of Pages in Booklet : 40

प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या /
Question Paper Booklet No.

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 150
No. of Questions in Booklet : 150

Paper Code : 36
Sub: E.A.F.M.-II

APCE-12

8251045

समय : 3.00 घण्टे
Time : 3.00 Hours

Paper - II

अधिकतम अंक : 75
Maximum Marks : 75

प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पेपर सील/पॉलिथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal/polythene bag of the Question Paper Booklet the candidate should ensure that Question Paper Booklet No. of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Paper Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
- OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी: अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- Answer all questions.
- All questions carry equal marks.
- Only one answer is to be given for each question.
- If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
- If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (कोड) के तहत किस वर्ष में की गई थी ?
 (1) अक्टूबर, 2016
 (2) अक्टूबर, 2017
 (3) दिसम्बर, 2016
 (4) दिसम्बर, 2017
2. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का मुख्य प्रायोजक कौन है ?
 (1) राजस्थान सरकार
 (2) भारतीय स्टेट बैंक
 (3) पंजाब नेशनल बैंक
 (4) भारत सरकार
3. गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित करते हुए, किस वर्ष में, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी ?
 (1) 1976 (2) 2013
 (3) 2002 (4) 1979
4. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है ?
 (1) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना
 (2) विदेशी मुद्रा दरों में स्थिरता सुनिश्चित करना
 (3) देशों के भुगतान संतुलन में असमानता या गलत समायोजनों को दूर करना या कम करना
 (4) उपरोक्त सभी
5. 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में _____ दो बहुपक्षीय संगठनों को बनाया गया है ।
 (1) IBRD और IMF
 (2) WTO और ADB
 (3) IDBI और IFCI
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

1. The Insolvency and Bankruptcy Board of India was established in which year under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) ?
 (1) October, 2016
 (2) October, 2017
 (3) December, 2016
 (4) December, 2017
2. Who is the main sponsor of Rajasthan Marudhara Gramin Bank ?
 (1) Government of Rajasthan
 (2) State Bank of India
 (3) Punjab National Bank
 (4) Government of India
3. In which year, after amalgamating 3 Regional Rural Banks, the Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank was established under Regional Rural Bank Act, 1976 through Gazette notification ?
 (1) 1976 (2) 2013
 (3) 2002 (4) 1979
4. Which of the following is the objective of International Monetary Fund ?
 (1) Establishing International Monetary Co-operation.
 (2) Ensuring stability in the foreign exchange rates.
 (3) Eliminating or reducing the disequilibrium or maladjustments in balance of payments of countries.
 (4) All of the above
5. _____ are the two multilateral organizations created at in the Bretton Woods Conference in 1944 ?
 (1) IBRD and IMF
 (2) WTO and ADB
 (3) IDBI and IFCI
 (4) None of above

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

6. निम्न में से कौन ADRs निर्गमित कर सकता है ?

- (1) अमेरिकी निवेशक द्वारा
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय एक्सचेंज द्वारा
- (3) भारतीय रिजर्व बैंक
- (4) यू.एस. के बैंक

7. भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी ?

- (1) 1972 (2) 1992
- (3) 1982 (4) 1981

8. विश्व व्यापार संगठन ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत शुरुआत की ?

- (1) टोरक्यू समझौता
- (2) जेनेवा समझौता
- (3) मारकेश समझौता
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. _____ एक प्रकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसमें कोई कम्पनी, मेजबान देश में पहले से मौजूद सुविधा का पट्टा या खरीद करती है।

- (1) व्यूहरचनात्मक निवेश
- (2) ग्रीनफील्ड निवेश
- (3) ब्राउनफील्ड निवेश
- (4) उपरोक्त सभी

10. भारत में ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है ? [सितंबर 2020 को]

- (1) 51% (2) 49%
- (3) 74% (4) 26%

11. भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौनसा शामिल नहीं होना चाहिए ?

- (1) देशों के मध्य के दृश्य व्यापार
- (2) देशों के मध्य के अदृश्य व्यापार
- (3) इक्विटी शेयर धारकों को बोनस शेयर

6. Which of the following may issue ADRs ?

- (1) American Investors
- (2) International Exchange
- (3) RBI
- (4) Banks of U.S.

7. EXIM bank was established in which year ?

- (1) 1972 (2) 1992
- (3) 1982 (4) 1981

8. The WTO officially commenced under which of following agreement ?

- (1) Torquay agreement
- (2) Geneva agreement
- (3) Marrakesh agreement
- (4) None of the above

9. _____ is a type of Foreign Direct Investment in which a company make lease or purchase of a pre-existing facility in host country.

- (1) Strategic investment
- (2) Greenfield investment
- (3) Brownfield investment
- (4) All of the above

10. What is the FDI limit in Defence Production under Automatic Route in India ? (As on September, 2020)

- (1) 51 % (2) 49 %
- (3) 74 % (4) 26 %

11. Which of the following should not be included in the current account of balance of payment ?

- (1) Visible trading across countries.
- (2) Invisible trading across countries.
- (3) Bonus shares to equity

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

12. एक देश द्वारा दूसरे देश में सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी सहायता निम्नलिखित में से दूसरे देश के किस खाते में आएगी ?

- (1) प्रत्यक्ष आय प्राप्ति खाता
- (2) आधिकारिक संचय खाता
- (3) पूँजी खाता
- (4) चालू खाता

13. गैर-ऋण सृजन पूँजी अन्तर्बाह निम्न की श्रेणी में आता है :

- (1) बाहरी वाणिज्यिक उधार
- (2) पूँजी खाता
- (3) चालू खाता
- (4) आधिकारिक संचय खाता

14. केन्द्रीय बैंक और स्थाई विनिमय दर प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

- (1) स्थिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में RBI के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है ।
- (2) स्थिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में RBI का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है जब विनिमय दरें नहीं बदलती है ।
- (3) विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में RBI का हस्तक्षेप अक्सर आवश्यक होता है ।
- (4) उपरोक्त सभी

15. विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को प्रबंधित करने की बाहरी प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है ?

- (1) कुछ नहीं करना
- (2) लिडिंग और लेगिंग
- (3) नेटिंग
- (4) विदेशी मुद्रा उधार लेना

12. Government's Direct Foreign Aid by a country to another country will come in which of the following accounts of the second country ?

- (1) Direct income received account
- (2) Official reserves account
- (3) Capital account
- (4) Current account

13. Non-debt creating capital inflow comes under the category of

- (1) External commercial borrowings
- (2) Capital account
- (3) Current account
- (4) Official reserves account

14. Which one of the following is correct with respect to Central Bank and Fixed Exchange Rate system ?

- (1) RBI intervention in the fixed foreign exchange market is not permitted.
- (2) RBI's intervention in the fixed foreign exchange market is not necessary as exchange rates do not change.
- (3) RBI's intervention in the foreign exchange market is often necessary.
- (4) All of the above

15. Which of the following is external process of managing Forex risk ?

- (1) Do nothing
- (2) Leading and lagging
- (3) Netting
- (4) Foreign currency borrowing

16. कथन-I : विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, विदेशी मुद्राओं की कीमतों का दो देशों के व्यापार के मध्य प्लवन प्रभाव (Spill-Over) प्रभाव पड़ता है।

कथन-II : अक्सर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, मौद्रिक प्राधिकरणों का उद्देश्य विनिमय दर को स्थिर करना होता है।

कथन-III : विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की आपूर्ति-पक्ष मात्रा लगभग असीमित है।

उपरोक्त कथन में से कौनसा/से सही है/हैं ?

- (1) केवल कथन I
- (2) केवल कथन I और II
- (3) केवल कथन I और III
- (4) सभी कथन सही हैं।

17. निम्न में से कौनसा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का प्रकार है ?

- (1) क्षेत्रीय एफ.डी.आई.
- (2) लम्बवत् एफ.डी.आई.
- (3) समुच्चयकरण (Conglomerate) एफ.डी.आई.
- (4) उपरोक्त सभी

18. एक देश में एक वर्ष के व्यापार संतुलन घाटे की स्थिति में था। मजदूरी, निवेश आय और वर्तमान स्थानान्तरण के लिए शेष शून्य था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ?

- (1) यह संभव है कि, निवेश, बचत से आधिक्य में हो।
- (2) यह संभव है कि, विदेशी ऋण, व्यापारिक घाटे के बराबर रहा हो।
- (3) यह संभव है कि, पूँजी और वित्तपोषण खाते पर अधिशेष रहा हो।

16. Statement I : In foreign exchange market prices of foreign currencies have spill-over effects on trade between two nations.

Statement II : Often in foreign exchange market, monetary authorities aim at stabilizing the exchange rate.

Statement III : The supply-side quantity of the foreign exchange market is virtually unlimited.

Which of the above statement(s) is correct ?

- (1) Statement I only
- (2) Statement I and II only
- (3) Statement I and III only
- (4) All the statements are correct.

17. Which of the following is a type of FDI ?

- (1) Horizontal FDI
- (2) Vertical FDI
- (3) Conglomerate FDI
- (4) All of the above

18. A country had a balance of trade deficit in a year. Balance for wages, investment income and current transfers were zero. Which of the following statement(s) is true ?

- (1) It may possible that investment must have exceeded saving.
- (2) It may possible that borrowing from abroad must have been equal to the trade deficit.
- (3) It may possible that, there must have been a surplus on the capital and financing account.

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

19. बाजार विश्लेषण के तहत एक जोखिम जो, किसी विशिष्ट कम्पनी या उद्योग के लिए ना हो, को क्या कहते हैं ?

- (1) अव्यवस्थित / अपद्धतिबद्ध जोखिम
- (2) विशिष्ट जोखिम
- (3) विविधतापूर्ण जोखिम
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

20. जोखिम प्रबंधन के बुनियादी तरीकों में शामिल है :

- (1) जोखिम से बचाव
- (2) जोखिम स्थानान्तरण
- (3) जोखिम बाँटना
- (4) उपरोक्त सभी

21. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता का लाभ नहीं है ?

- (1) निर्यातों को प्रोत्साहन
- (2) आयातों को हतोत्साहित करना
- (3) विदेश से धन प्रेषण के लिए प्रोत्साहन
- (4) आयात प्रतिस्थापन को हतोत्साहित करना

22. विनिमय दर किसके तहत शासित होती है :

- (1) मात्रात्मक विधि (2) गुणात्मक विधि
- (3) सैद्धान्तिक विधि (4) उपरोक्त सभी

23. एक आकस्मिक स्थिति में, भारत में विनिमय दर का निर्धारण कौन कर सकता है ?

- (1) आई.एम.एफ. (IMF)
- (2) आई.बी.आर.डी. (IBRD)
- (3) आर.बी.आई. (RBI)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

24. विश्व व्यापार संगठन किसके सहयोग से काम करता है (औपचारिक समझौते के साथ अथवा अनौपचारिक समझौते के साथ) ?

- (1) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (2) डबल्यू एच ओ
- (3) विकल्प (1) और (2)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

19. What do we call the risk not unique to a specific company or industry under Market Analysis ?

- (1) Unsystematic risk
- (2) Specific risk
- (3) Diversifiable risk
- (4) None of the above

20. Basic methods of Risk Management include

- (1) Risk Avoidance
- (2) Risk Transfer
- (3) Risk sharing
- (4) All of the above

21. Which of the following is not the benefit of Convertibility of Indian rupee ?

- (1) Encouragement to exports.
- (2) Discouragement to imports.
- (3) Incentive to send remittances from abroad.
- (4) Discouragement to import substitution.

22. Exchange rate is governed under

- (1) Quantitative method
- (2) Qualitative method
- (3) Theoretical method
- (4) All of the above

23. In an emergent situation, who may determine the Exchange Rate in India ?

- (1) IMF
- (2) IBRD
- (3) RBI
- (4) None of the above

24. WTO works in co-operation with which of the following (with formal agreements or without formal agreements) ?

- (1) World Bank and IMF
- (2) WHO
- (3) Option (1) and (2)
- (4) None of the above

25. भारतीय निर्यात-आयात बैंक निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है ?

- (1) केवल भारत के आयात व्यापार से
- (2) विदेशी व्यापार से
- (3) केवल भारत के निर्यात व्यापार से
- (4) भारत का घरेलू व्यापार

26. व्यापार-संतुलन सम्बन्धित है :

- (1) घरेलू व्यापार
- (2) स्थानीय व्यापार
- (3) निर्यात-आयात
- (4) उपरोक्त सभी

27. IDA, IFC संस्थान निम्न में से किस अग्रणी संगठन से सम्बन्धित है ?

- (1) यू.एन.ओ. (UNO)
- (2) डब्ल्यू.टी.ओ. (WTO)
- (3) आई.एम.एफ. (IMF)
- (4) आई.बी.आर.डी. (IBRD)

28. GDR अक्सर किस स्टॉक विनिमय केन्द्र पर सूचीबद्ध होते हैं ?

- (1) न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
- (2) लंदन स्टॉक एक्सचेंज
- (3) लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज
- (4) विकल्प (2) और (3)

29. NAMA उत्पाद क्या है ?

- (1) विनिर्माण उत्पाद
- (2) ईंधन और खनन उत्पाद
- (3) दोनों विकल्प (1) और (2)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

30. निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ?

- (1) पूर्ण पूँजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति है।
- (2) हमने 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के कारण पूँजी खाता परिवर्तनीयता को जारी रखना रोक दिया।
- (3) भारत में चालू खाता और पूँजी खाता दोनों में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है।

25. EXIM Bank is concerned with which of following ?

- (1) India's import trade only
- (2) Foreign trade
- (3) India's export trade only
- (4) India's domestic trade

26. Balance of trade is related to

- (1) Domestic trade
- (2) Local trade
- (3) Export - Import
- (4) All of the above

27. IDA, IFC Institutes are related with which of the following pioneering organization ?

- (1) UNO
- (2) WTO
- (3) IMF
- (4) IBRD

28. The GDRs are often listed at which of following Stock Exchange ?

- (1) New York Stock Exchange
- (2) London Stock Exchange
- (3) Luxembourg Stock Exchange
- (4) Option (2) & (3)

29. What are NAMA products ?

- (1) Manufacturing products
- (2) Fuels and mining products
- (3) Both option (1) and (2)
- (4) None of the above

30. Which of the following is not correct ?

- (1) Full Capital Account convertibility is allowed.
- (2) We stopped continuing Capital Account convertibility due to the 1997 Asian Financial Crisis.
- (3) In India the full convertibility of Rupee is allowed in both current

www.prepp.in निम्न में से कौन सा, एक देश के व्यापार संतुलन खाते के जमापक्ष में सम्मिलित किया जा सकता है ?

- (1) आयात
- (2) निर्यात
- (3) घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश
- (4) विकल्प (2) व (3) दोनों

32. निर्यातक, जिसका वार्षिक निर्यात कारोबार ₹ _____ रुपये से अधिक है, वह ECGC की व्यापक शिपमेंट जोखिम नीति (Shipments Comprehensive Risks Policy) के लिए पात्र है।

- (1) 500 लाख (2) 100 लाख
- (3) 25 लाख (4) 700 लाख

33. निम्नलिखित में से कौनसा ई सी जी सी का उद्देश्य है ?

- (1) अप्रत्याशित नुकसान से भारतीय निर्यातकों को सुरक्षित रखें।
- (2) भारतीय निर्यातकों को पर्याप्त वित्त प्रदान करना
- (3) दोनों विकल्प (1) और (2)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

34. म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए कुछ प्रतिशत सम्पत्ति खर्च की जाती है। जो निवेशकों द्वारा वहन की जाती है। सम्पत्ति के उस प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे ?

- (1) व्यय / पोर्टफोलियो का औसत मूल्य (जहाँ व्यय में क्रियात्मक लागत, दलाली, प्रबंधन परामर्श और सलाहकार शुल्क सम्मिलित हैं।)
- (2) व्यय / पोर्टफोलियो का औसत मूल्य (जहाँ व्यय में क्रियात्मक लागत, प्रबंधन परामर्श और सलाहकार शुल्क सम्मिलित है।)
- (3) व्यय / पोर्टफोलियो का औसत मूल्य (जहाँ व्यय ब्रोकरेज का प्रतिनिधित्व करता है।)
- (4) व्यय / पोर्टफोलियो का औसत मूल्य (जहाँ व्यय में क्रियात्मक लागत, प्रबंधन परामर्श और सलाहकार शुल्क सम्मिलित नहीं है।)

31. Which of the following may be included in the credit side of Balance of Trade account of a country ?

- (1) Imports
- (2) Exports
- (3) Foreign investment in the domestic economy.
- (4) Option (2) & (3) both

32. Exporter whose annual export turnover is more than ₹ ____ is eligible for Shipments Comprehensive Risks Policy of ECGC.

- (1) 500 Lakh (2) 100 Lakh
- (3) 25 Lakh (4) 700 Lakh

33. Which one of the following is objective of ECGC ?

- (1) Protect the Indian exporters against unforeseen losses.
- (2) To provide adequate finance to the Indian exporters.
- (3) Both option (1) and (2).
- (4) None of the above

34. Some percentage of assets is spent to run a mutual fund which are born by investors. How to compute that percentage of assets ?

- (1) Expenses/average value of portfolio (where expense includes operational cost, brokerage, management consultancy and advisory fees)
- (2) Expenses/average value of portfolio (where expense includes operational cost, management consultancy and advisory fees)
- (3) Expenses/average value of portfolio (where expense represents brokerage)
- (4) Expenses/average value of portfolio (where expense excludes operational cost, management consultancy and advisory fees)

35. एक विनिमय केन्द्र पर ट्रेड किए जाने वाले फंड की

- (1) कीमत का निर्धारण केवल हर दिन के अंत में किया जाता है।
- (2) कीमत स्थिर रहती है और फंड की अवधि के दौरान किसी भी बदलाव से नहीं गुजरती है।
- (3) आपूर्ति एवं मांग के उतार-चढ़ाव के साथ कीमत में दिनभर परिवर्तन होता रहता है।
- (4) उपरोक्त सभी

36. निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रेटिंग के दायरे के बारे में सही है ?

- (1) क्रेडिट रेटिंग के तहत ऋण प्रपत्रों के बारे में राय दी जाती है।
- (2) क्रेडिट रेटिंग के तहत IPO के बारे में राय दी जाती है।
- (3) क्रेडिट रेटिंग के तहत वाणिज्यिक प्रपत्रों के बारे में राय दी जाती है।
- (4) उपरोक्त सभी

37. विनियमन के अधीन, स्वीकृत कुल व्यय अनुपात, औसत साप्ताहिक शुद्ध सम्पत्तियों के _____ होता है।

- (1) प्रथम 100 करोड़ पर 3%
- (2) प्रथम 200 करोड़ पर 3%
- (3) प्रथम 500 करोड़ पर 2.5%
- (4) प्रथम 100 करोड़ पर 2.5%

38. शुरुआती अत्यन्त उच्च जोखिम और रिटर्न की उच्चतम दर को वहन करना (स्टार्ट अप के लिए), निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है ?

- (1) एंजेल निवेशक
- (2) वेंचर कैपिटल फंड
- (3) निवेश बैंक्स

35. An Exchange traded fund's

- (1) price is determined only at the end of every day.
- (2) price is fixed and does not undergo any change during the tenure of the fund.
- (3) price changes throughout the day, fluctuating with supply and demand.
- (4) All of the above

36. Which of the following is correct about the scope of credit rating ?

- (1) Under credit rating opinion is provided about debt instrument.
- (2) Under credit rating opinion is provided about IPO.
- (3) Under credit rating opinion is provided about commercial paper.
- (4) All of the above

37. The Total Expense Ratio (TER) allowed under regulation is _____ of average weekly net assets.

- (1) 3% for the first 100 crore
- (2) 3% for the first 200 crore
- (3) 2.5% for the first 500 crore
- (4) 2.5% for the first 100 crore

38. Bearing initial extremely high risks and highest rate of returns, (for start-ups) comes under the category of which of following ?

- (1) Angel investors
- (2) Venture capital funds
- (3) Investment banks

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

39. क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या सही है ?

- (1) सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (ऋणपत्र) के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया अनिवार्य है।
- (2) सूचीबद्ध की जाने वाली कम्पनियों के IPO इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है।
- (3) NBFC द्वारा सार्वजनिक जमा के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया अनिवार्य है।
- (4) कॉर्पोरेट द्वारा वाणिज्यिक-पत्रों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया अनिवार्य है।

40. वेंचर कैपिटल निवेश सौदे के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (1) वेंचर कैपिटल निवेश सौदे के अन्तर्गत मूल्यांकन, सेबी के फॉर्मूले के अनुसार होता है।
- (2) वेंचर कैपिटल निवेश सौदे में प्री-मनी वैल्यूएशन किया जाता है।
- (3) वेंचर कैपिटल निवेश सौदे के अन्तर्गत मूल्यांकन, कम्पनी अधिनियम के अनुसार होता है।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

41. एक इन्डेक्स्ड फंड [Indexed Fund] से अधिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड [Exchange Traded Fund] का मुख्य लाभ है :

- (1) निवेश का लचीलापन
- (2) अधिक आसानी से कारोबारित
- (3) अधिक सुविधाजनक
- (4) उपरोक्त सभी

42. एक कम्पनी में चार उधारकर्ताओं से ₹ 200 करोड़ की प्राप्ति होती है। कम्पनी इन्हें 1000 छोटे भागों में विभाजित करता है और इन्हें द्वितीयक बाजार में छोटे निवेशकों को बेचता है। ऋण के इस विखंडन को हम क्या कहते हैं ?

- (1) ऋण ईकाई योजना
- (2) ऋण सिक्यूरिटाइजेशन
- (3) सम्पत्ति पुनर्निर्माण
- (4) एक कम्पनी ऐसा नहीं कर सकती।

39. What is true about Credit Rating ?

- (1) Credit Rating process is mandatory for listed Non-convertible Debentures.
- (2) Credit Rating process is not mandatory for Initial Public Offerings of companies that are getting listed.
- (3) Credit Rating process is mandatory for public deposit by NBFCs.
- (4) Credit Rating process is mandatory for Commercial papers by Corporate.

40. Which of the following is true about valuation of Venture Capital investment deal ?

- (1) In Venture Capital Investment deal, Valuation is done as per SEBI formula.
- (2) Pre-money valuation is done in Venture Capital Investment deal.
- (3) In Venture Capital investment deal, Valuation is done as per company law.
- (4) None of the above

41. The main advantage(s) of an Exchange Traded Fund over an Indexed Fund is

- (1) Investing flexibility
- (2) Traded more easily
- (3) More convenient
- (4) All of the above

42. A company has receivables of ₹ 200 crores from four borrowers. It converts these into smaller portions of 1000 each and sells these to smaller investors in the secondary market.

What do we call this fragmentation of the loan ?

- (1) Debt unit scheme
- (2) Debt securitization
- (3) Assets reconstruction
- (4) A company cannot do this

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

43. _____ भारत में यू.टी.आई. स्कीम की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम थी, जो कि 2007 में बन्द हो गई थी।

- (1) यूलिप
- (2) यू.एस.-1995
- (3) यू.एस.-64
- (4) यू.टी.आई. बॉण्ड फंड

44. रिटर्न आवश्यकताओं और जोखिम सहिष्णुता की पहचान करना निवेश प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस घटक में शामिल है ?

- (1) निवेश साधन
- (2) व्यूहरचनात्मक विकास
- (3) ग्राहक को समझना
- (4) निवेश प्रक्रिया के हर घटक में

45. निम्न में से कौनसा नवीन निर्गमन बाजार (New Issue Market) का कार्य है :

- (1) प्रादुर्भाव
- (2) अभिगोपन
- (3) वितरण
- (4) उपरोक्त सभी

46. आपको कैपिटल अक्ष पर प्रमाप विचलन एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अपेक्षित रिटर्न का एक ग्राफ दिया जाता है। आप उस लाइन को क्या कहेंगे जो उस पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें जोखिम व प्रत्याय को बेहतर ढंग से जोड़ा जाता है ?

- (1) पूँजी बाजार लाईन [The Capital Market line]
- (2) प्रतिभूति बाजार लाईन [The Security Market line]
- (3) चारित्रिक रेखा [The Characteristic line]

43. UTI scheme _____ was the largest mutual fund scheme in India, which was closed in the year 2007.

- (1) ULIP
- (2) US-1995
- (3) US-64
- (4) UTI Bond Fund

44. Identifying return requirements & risk tolerance is involved in which of the following component of the investment process ?

- (1) Investment vehicles
- (2) Strategy development
- (3) Understanding the client
- (4) In every component of the investment process

45. Which of the following is the function of New Issue Market ?

- (1) Origination
- (2) Underwriting
- (3) Distribution
- (4) All of the above

46. You are given with a graph with standard deviation on the horizontal axis and expected return on the vertical axis. What will you call the line representing the portfolio that optimally combine risk and return ?

- (1) The capital market line
- (2) The security market line
- (3) The characteristic line

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

- (1) यदि किसी परिसम्पत्ति की अपेक्षित प्रत्याशा, प्रतिभूति बाजार रेखा के ऊपर प्लाट होती है तो वह परिसम्पत्ति अधिमूल्यांकित है।
- (2) यदि किसी परिसम्पत्ति की अपेक्षित प्रत्याशा, प्रतिभूति बाजार रेखा के ऊपर प्लाट होती है तो सम्पत्ति उचित मूल्यांकित है। (यदि परिसम्पत्ति असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में विशेष जोखिम रखती है।)
- (3) यदि किसी परिसम्पत्ति की अपेक्षित प्रत्याशा, प्रतिभूति बाजार रेखा के ऊपर प्लाट होती है, तो वह परिसम्पत्ति कम मूल्यांकित है।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

48. कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरी का दावा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न सबसे अच्छे से समझे जाते हैं :

- (1) यदि मौद्रिक कारक मालूम हो
- (2) बाजार प्रवृत्ति मालूम हो
- (3) यदि व्यवस्थित जोखिम हो
- (4) यदि विशिष्ट जोखिम हो

49. सी.ए.पी.एम. के तहत, हम कह सकते हैं कि अधिमूल्यांकित (Over Priced) प्रतिभूतियों के _____ होते हैं।

- (1) नकारात्मक एल्फा
- (2) नकारात्मक बीटा
- (3) सकारात्मक एल्फा
- (4) शून्य बीटा

50. APT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (1) CAPM के विपरीत, APT सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तनीय चरों के आधार पर जोखिम प्रीमियम का उपयोग करता है।
- (2) CAPM के विपरीत, APT में कम प्रतिबन्धात्मक मान्यताएँ हैं।
- (3) CAPM के विपरीत, APT में प्रसामान्य रूप से वितरित प्रतिभूति रिटर्न की आवश्यकता होती है।
- (4) उपरोक्त सभी सही हैं।

47. Which one of the following is true ?

- (1) If an asset's expected return plots above the security market line, then the asset is overpriced.
- (2) If an asset's expected return plots above the security market line, then the asset is fairly priced. (if it has an unusually large amount of unique risk)
- (3) If an asset's expected return plots above the security market line, then the asset is under priced.
- (4) None of the above

48. Capital Asset Pricing Theory asserts that portfolio returns are best explained if :

- (1) Monetary factors are known
- (2) Market trend is known
- (3) Systematic risk is there
- (4) Specific risk is there

49. Under the CAPM, we can say that overpriced securities have _____.

- (1) Negative alphas
- (2) Negative betas
- (3) Positive alphas
- (4) Zero betas

50. Which of the following is correct about APT ?

- (1) In contrast to the CAPM, APT uses risk premiums based on micro economic variables.
- (2) In contrast to the CAPM, APT have fewer restrictive assumptions.
- (3) In contrast to the CAPM, APT requires normally distributed security returns.
- (4) All of above is correct.

51. APT मॉडल किसने विकसित किया ?

- (1) हैरी मार्कोविट्ज़
- (2) वॉल्ट स्टॉय
- (3) विलियम शार्प
- (4) स्टीफन रॉस

52. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) CAPM और APT दोनों अनुमान करते हैं कि, सभी निवेशक एक ही बाजार स्थिति में एक ही मार्केट पोर्टफोलियो रखेंगे।
- (2) CAPM और APT दोनों बताते हैं कि, जोखिम और प्रत्याशित प्रत्याय के बीच सम्बन्ध है।
- (3) CAPM और APT दोनों बताते हैं कि, जोखिम और प्रत्याशित प्रत्याय के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (4) उपरोक्त सभी

53. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?

कथन-I : एक मजबूत रूप के प्रभावी बाजार [Strong form efficient market] में, किसी बाजार की सभी जानकारी, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, का स्टॉक की कीमत पर प्रभाव पड़ता है।

कथन-II : EMH की प्राथमिक मान्यता यह है कि जानकारी सार्वभौमिक रूप से साझा की जाती है और स्टॉक की कीमतें एक रेन्डम दिशा का अनुसरण करती है।

- (1) ना तो कथन I, ना ही कथन II
- (2) कथन I केवल
- (3) दोनों कथन (I) और (II)

51. Who developed the APT model ?

- (1) Harry Markowitz
- (2) Walt Stoy
- (3) William Sharpe
- (4) Stephen Ross

52. Which of the following statement is correct ?

- (1) Both the CAPM and the APT predict that, all investors will hold the same market portfolio in same market situation.
- (2) Both the CAPM and the APT state that, there is a relation between risk and expected return.
- (3) Both the CAPM and the APT state that, there is no relation between risk and expected return.
- (4) All of the above

53. Which of the following statement is true ?

Statement I : In a strong form efficient market, all information in a market, whether public or private, is accounted for in a stock's price.

Statement II : The primary assumptions of EMH are that information is universally shared and that stock prices follow a random walk.

- (1) Neither Statement I nor Statement II.
- (2) Statement I only.
- (3) Both Statement I & Statement II.

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

54. निम्नलिखित में से कौनसी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष रूप से स्थापित एक पूर्ण सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ?

- (1) एस.एम.ई.आर.ए. (SMERA)
- (2) आई.सी.आर.ए. (ICRA)
- (3) ओ.एन.आई.सी.आर.ए. (ONICRA)
- (4) क्रिसिल (CRISIL)

55. निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार उपकरण है ?

- (1) ट्रेजरी बिल
- (2) सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD)
- (3) वाणिज्यिक प्रपत्र
- (4) उपरोक्त सभी

56. निम्न में से कौन सी द्वितीयक बाजार की विशेषता है ?

- (1) कम लेनदेन लागत / सौदा लागत और सभी निवेशकों को तरलता देता है।
- (2) इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से घटित किसी भी विकास से प्रतिभूतियों की कीमत को दुर्लभ रूप से समायोजित करता है।
- (3) विकल्प (1) और (2)
- (4) ना तो विकल्प (1) और ना (2)

57. पोर्टफोलियो थ्योरी का माध्य विचरण विश्लेषण मॉडल किसने विकसित किया ?

- (1) विलियम शार्प
- (2) स्टीफन रॉस
- (3) इयूजीन फामा
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

58. सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ? (फरवरी 2021 में)

- (1) श्री जी. महालिंगम
- (2) श्री एस.के. मोहंती
- (3) वित्तमंत्री (पदेन)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

54. Which of the following is a full service Credit Rating Agency exclusively set up for micro, small and medium enterprises in India ?

- (1) SMERA
- (2) ICRA
- (3) ONICRA
- (4) CRISIL

55. Which of the following is money market instrument ?

- (1) Treasury bills
- (2) Certificates of deposit
- (3) Commercial paper
- (4) All of the above

56. Which of the following is a feature of Secondary Market ?

- (1) Low transaction cost and gives liquidity to all investors.
- (2) Rarely adjusts the security's price to any development due to insider trading.
- (3) Option (1) and (2).
- (4) Neither option (1) nor (2).

57. Who developed Mean Variance Analysis Model of Portfolio theory ?

- (1) William Sharpe
- (2) Stephen Ross
- (3) Eugene Fama's
- (4) None of the above

58. Who is the present Chairman of SEBI ? (as on February 2021)

- (1) Shri G. Mahalingam
- (2) Shri S.K. Mohanty
- (3) Minister of Finance (ex-officio)
- (4) None of the above

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

59. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम किस वर्ष में पारित किए गए थे ?

- (1) 2016 (2) 2017
(3) 2018 (4) 2019

60. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम किस वर्ष में पारित किए गए थे ?

- (1) 2016 (2) 2017
(3) 2018 (4) 2019

61. निम्नलिखित में से कौनसा सेबी द्वारा लिया गया निवेशक सुरक्षा उपाय नहीं है ?

- (1) शेयर हस्तांतरण और आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण
(2) यूनिक आदेश कोड संख्या
(3) निवेशक सुरक्षा निधि से प्रत्येक निवेशक को निधि प्रदान करना
(4) अनुबंधों का समय पर मुद्रांकन

62. निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं है ?

- (1) NSE IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(2) मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(3) मेट्रोपोलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(4) NSE ट्रेड सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन

59. Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations were passed in which year ?

- (1) 2016 (2) 2017
(3) 2018 (4) 2019

60. Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations were passed in which year ?

- (1) 2016 (2) 2017
(3) 2018 (4) 2019

61. Which of the following is not an investor protection measure taken by SEBI ?

- (1) Simplification of share transfer and allotment procedure.
(2) Unique order code number.
(3) Providing fund to each investor from Investor protection fund.
(4) Timely stamping of contracts.

62. Which of the following is not a Clearing Corporation ?

- (1) NSE IFSC Clearing Corporation Limited.
(2) Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Ltd.
(3) Metropolitan Clearing Corporation of India Ltd.
(4) NSE Trade Settlement

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

63. निम्नलिखित में से कौनसा NSE क्लियरिंग लिमिटेड का उद्देश्य नहीं है ?

- (1) प्रतिभूतियों के समाशोधन और निपटान में विश्वास जगाने एवं बनाए रखने के लिए
- (2) प्रतिपक्ष जोखिम गारंटी प्रदान करने के लिए
- (3) लंबे निपटान चक्रों को बढ़ावा देने एवं बनाए रखने के लिए।
- (4) एक तंग जोखिम रोकथाम प्रणाली संचालित करने के लिए।

64. एक गतिविधि की अवधि 5 दिन है। शुरुआत का नोड पर 5 दिवस का पूर्व शुरुआती समय [early start time] और 6 दिवस का विलम्बतम शुरुआती समय [latest start time] रखता है।

अंत का नोड, 11 दिवस का पूर्व शुरुआती समय [early start time] और 12 दिवस का विलम्बतम शुरुआती समय [latest start time] रखता है।

कुल फ्लोट है :

- | | |
|------------|------------|
| (1) 1 दिवस | (2) 2 दिवस |
| (3) 5 दिवस | (4) 7 दिवस |

65. किसी परियोजना में गतिविधि का निम्नलिखित समय अनुमानित है :

पूरा होने का समय (सबसे अधिक संभावना) : 07 दिवस

आशावादी समय : 06 दिवस

निराशावादी समय : 09 दिवस

इस गतिविधि के लिए अपेक्षित समय और विचरण क्या होगा ?

- (1) 7.17 दिवस, 0.25 दिवस
- (2) 7.33 दिवस, 0.25 दिवस
- (3) 3.67 दिवस, 1.5 दिवस
- (4) 7.17 दिवस, 1.5 दिवस

63. Which of the following is not an objective of NSE clearing Limited ?

- (1) To bring and sustain confidence in clearing and settlement of securities.
- (2) To provide counter-party risk guarantee.
- (3) To promote and maintain, long settlement cycles.
- (4) To operate a tight risk containment system.

64. For an activity duration is 5 days and the node at the star has an early start time of 5 days and a latest start time of 6 days. The node at the end has an early start time of 11 days and a latest start time of 12 days. The total float is

- (1) 1 day
- (2) 2 days
- (3) 5 days
- (4) 7 days

65. The following time of activity in a project is estimated :

Most likely completion time : 7 days.

Optimistic time : 6 days,

Pessimistic time : 9 days.

What will be the expected time and the variance for this activity ?

- (1) 7.17 days, 0.25 days
- (2) 7.33 days, 0.25 days
- (3) 3.67 days, 1.5 days
- (4) 7.17 days, 1.5 days

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

66. एक या दो पूँछ परीक्षण [one or two tail test] लागू करके, हम निम्नलिखित निर्धारित करने का प्रयास करते हैं :

- (1) अस्वीकृति का क्षेत्र (क्रांतिक क्षेत्र) [Region of Rejection], वितरण की एक या दो पूँछों [tails] में स्थित है।
- (2) परिकल्पना के एक या दो संभावित निष्कर्ष है।
- (3) सेम्पल के दो चरम मान [न्यूनतम या अधिकतम] जिन्हें अस्वीकार करने की आवश्यकता है।
- (4) विकल्प (1) और (3) दोनों

67. रैखिक प्रतिगमन मॉडल में, कुल भिन्नताएँ होती है :

- (1) लघु और प्रमुख विविधताएँ
- (2) रैखिक व गैर-रैखिक विविधताएँ
- (3) समझाई गई विविधताएँ व नहीं समझाई गई विविधताएँ
- (4) विशेष रूप से रैखिक प्रतिगमन मॉडल में “कुल भिन्नताएँ” जैसा कुछ नहीं है।

68. यदि निर्धारण का गुणांक [coefficient of determination] शून्य के करीब है, तो हम इसकी व्याख्या करते हैं :

- (1) जैसा कि शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम किसी भी चीज की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।
- (2) एक चर का दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

66. By applying one or two tail test, we try to determine the following :

- (1) Region of rejection is located in one or the two tails of the distribution.
- (2) Hypothesis has one or two possible conclusions.
- (3) Two extreme values (min or max) of the sample which need to be rejected.
- (4) Option (1) and (3) both

67. In the linear regression model, total variations consist of

- (1) Minor and major variation.
- (2) Linear and non-linear variations.
- (3) Explained variations and unexplained variations.
- (4) There is nothing like “total variations” in linear regression model specifically.

68. If the coefficient of determination is close to zero, we interpret that

- (1) As zero makes no sense so we cannot interpret anything.
- (2) One variable has no impact on the other variable.
- (3) The variables have negative dependence between them.

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!



LIMITED
TIME OFFER

69. रैखिक प्रोग्रामिंग [Linear Programming]

में गैर-नकारात्मकता का तात्पर्य है :

- (1) एक चर का उद्देश्य मूल्य [Objective value] के प्रति नकारात्मक योगदान नहीं हो सकता है।
- (2) एक चर का एक बाधा समीकरण [Constraint equation] में नकारात्मक गुणांक [Negative coefficient] नहीं हो सकता है।
- (3) एक चर का उद्देश्य फलन [objective function] में नकारात्मक गुणांक [Negative coefficient] नहीं हो सकता है।
- (4) एक चर का नकारात्मक मान नहीं हो सकता है।

70. निम्नलिखित में से कौन सा 'शून्य' परिकल्पना के बारे में सही है :

- (1) 'शून्य' परिकल्पना एक प्रतिदर्श सिद्धान्त [Sampling Theory] है।
- (2) 'शून्य' परिकल्पना एक सांख्यिकीय परिकल्पना है जिसको सत्य मानकर संभावित अस्वीकृति के लिये परीक्षण किया जाता है।
- (3) 'शून्य' परिकल्पना एक प्रकार की परिकल्पना है जिसका निदर्शन में कोई अर्थ (महत्त्व) नहीं है।
- (4) 'शून्य' परिकल्पना एक साधन है जो समूह [Universe] के लिए प्रतिदर्श [Sample] की गैर-उपयुक्तता साबित करता है।

71. पैरामीट्रिक परीक्षण, गैर-पैरामीट्रिक परीक्षणों के विपरीत, इनके बारे में कुछ मान्यताएँ रखते हैं :

- (1) पोपूलेशन का आकार
- (2) सेम्पल का आकार
- (3) अन्डरलाइंग वितरण [Underlying Distribution]
- (4) विकल्प (2) और (3) दोनों

69. Non-negativity in linear programming implies that

- (1) A variable cannot have a negative contribution towards the objective value.
- (2) A variable cannot have a negative coefficient in a constraint equation.
- (3) A variable cannot have a negative coefficient in the objective function.
- (4) A variable cannot have a negative value.

70. Which of the following is correct about the 'null' hypothesis ?

- (1) 'Null' hypothesis is a sampling theory.
- (2) 'Null' hypothesis is a statistical concept used for possible rejection under the assumption that is true.
- (3) 'Null' hypothesis is a type of hypothesis which has no significance in sampling.
- (4) 'Null' hypothesis is a tool that proves the non-suitability of a sample to the Universe.

71. Parametric test, unlike the non-parametric tests, make certain assumption about :

- (1) Size of the population
- (2) Size of the sample
- (3) Underlying distribution
- (4) Option (2) & (3) both

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

72. परिकल्पना परीक्षण में, टाइप II त्रुटि (Type II error) तब होती है, जब :

- (1) हम एक शून्य परिकल्पना को स्वीकार करते हैं जब वह सत्य नहीं है।
- (2) हम एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं जब वह सत्य है।
- (3) हम टाइप I त्रुटि [Type I error] को स्वीकार करते हैं।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

73. 5% के सार्थकता स्तर [level of significance] को ले कर हम ऐसा कह सकते हैं :

- (1) हम 5% आश्वस्त हैं कि परिणाम संयोग से उत्पन्न नहीं हुए हैं।
- (2) हम 95% आश्वस्त हैं कि परिणाम संयोग से उत्पन्न नहीं हुए हैं।
- (3) हम 95% आश्वस्त हैं कि परिणाम संयोग से उत्पन्न हुए हैं।
- (4) हम 5% आश्वस्त हैं कि परिणाम संयोग से उत्पन्न हुए हैं।

74. काई-स्क्वायर परीक्षण [Chi-square Test] को प्रभावी होने के लिए, 2×2 की कन्टेन्जेन्सी टेबल [Contingency table] में प्रत्येक सेल का अपेक्षित मान कम से कम होना चाहिए।

- (1) 5
- (2) 4
- (3) 10
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

75. क्रम में किए गए चरों को मापने के लिए सहसम्बन्ध गुणांक का उपयोग किया जाता है

- (1) स्पीयरमैन का
- (2) पियर्सन का
- (3) फिशर का

72. In hypothesis testing, Type II error is committed when

- (1) We accept a null hypothesis when it is not true.
- (2) We reject a null hypothesis when it is true.
- (3) We accept the type I error.
- (4) None of the above

73. By taking a level of significance of 5%, we can say that

- (1) We are 5% confident that the results have not occurred by chance.
- (2) We are 95% confident that the results have not occurred by chance.
- (3) We are 95% confident that the results have occurred by chance.
- (4) We are 5% confident that the results have occurred by chance.

74. For the chi-square test to be effective, the expected value for each cell in the 2×2 contingency table has to be at least :

- (1) 5
- (2) 4
- (3) 10
- (4) None of these

75. To measure ranked variables, correlation coefficient is used

- (1) Spearman's
- (2) Pearson's
- (3) Fisher's

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

76. रैखिक सम्बन्ध का वर्णन करने के लिए सबसे

अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र है :

- (1) $\bar{y} = b_0 + b_1X + b_2X^2$
- (2) $y = a + bx$
- (3) $\bar{y} = b_0 + b_1X^2$
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

77. सतत विचरण (प्रसरण) को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है :

- (1) लेप्टोक्रेसी [Leptokracy]
- (2) समरूपता [Homoscedacity]
- (3) को-वैरियंस [Covariance]
- (4) उपरोक्त सभी

78. प्रतिगमन विधि का दूसरा नाम हो सकता है :

- (1) यूनिवैरियट विधि [Univariate Method]
- (2) रैखिक विधि [Linear Method]
- (3) समय-शृंखला विधि [Time-series Method]
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

79. क्लासिकल समय शृंखला अपघटन विधि का आधार है :

- (1) वार्षिक उपनति मूल्यों का मासिक उपनति मूल्यों में परिवर्तन करना
- (2) घटकों को अलग करना व पुनः सबको एक साथ रखकर रिकम्पोज करना
- (3) घटकों को अलग करना व प्रत्येक घटक के लिए महत्व के स्तर का परीक्षण करना
- (4) चर पर निर्भर करता है।

76. The most commonly used formula to describe linear relationship is

- (1) $\bar{y} = b_0 + b_1X + b_2X^2$
- (2) $y = a + bx$
- (3) $\bar{y} = b_0 + b_1X^2$
- (4) None of the above

77. Constant variance can be also expressed as

- (1) Leptokracy
- (2) Homoscedacity
- (3) Covariance
- (4) All of the above

78. The other name of regression method may be

- (1) Univariate method
- (2) Linear method
- (3) Time-series method
- (4) None of the above

79. Classical time series decomposition method's premise is

- (1) to convert annual trend values to monthly trend values.
- (2) to separate the components and then recompose them by putting them together.
- (3) to separate the components and then test the level of significance for every component.
- (4) depending on the variable.

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

80. घातांक स्मूथिंग [Exponential Smoothing] है :

- (1) काल श्रेणी की पूर्वानुमान विधियों में से एक
- (2) रैखिकता के परीक्षण की एक विधि
- (3) विचलनों को सुचारू करने के लिए संख्या घातांक का उपयोग करने की एक विधि
- (4) उपरोक्त सभी

81. निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिसम्पत्ति के अस्थिरता को मापने का सांख्यिकीय उपकरण है ?

- (1) मानक (प्रमाप) विचलन
- (2) सहसम्बन्ध
- (3) सहप्रसरण
- (4) उपरोक्त सभी

82. आपको निम्नलिखित डेटा (समंक) दिए गए हैं :
सेम्पल का आकार : 9

माध्य (Mean) : 16

प्रमाप विचलन (Standard deviation) : 4

मानक त्रुटि (Standard Error) क्या है ?

- (1) 1.00
- (2) 1.33
- (3) 0.66
- (4) 0.75

83. कथन-I : अनुमानित सांख्यिकी [inferential statistics], सेम्पल डेटा से पोपूलेशन के बारे में निष्कर्ष या सामान्यीकरण प्रदान करने से सम्बन्धित है।

कथन-II : अनुमानित सांख्यिकी [inferential statistics] केवल प्रतिदर्श माध्य [Sample Mean] का सबसे अच्छा अनुमान लगाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है :

- (1) कथन I
- (2) कथन II

80. Exponential smoothing is

- (1) One of the forecasting methods in time series.
- (2) A method of testing linearity.
- (3) A method to use number exponents to smooth the deviations.
- (4) All of the above

81. Which one of the following is the statistical tool to measure Volatility of a single asset ?

- (1) Standard deviation
- (2) Correlation
- (3) Covariance
- (4) All of the above

82. You are given with following data :

A sample size of 9,

A mean of 16 and

A standard deviation of 4.

What is the standard error ?

- (1) 1.00
- (2) 1.33
- (3) 0.66
- (4) 0.75

83. Statement I : Inferential statistics is related with providing conclusions and generalizations about population from sample data.

Statement II : Inferential statistics is related with providing the best estimate of the sample mean only.

Which of above statement(s) is correct ?

- (1) Statement I
- (2) Statement II
- (3) Statement I and Statement II

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

www.prepp.in सेमल माध्य की गणना 15 व प्रमाण त्रुटि [standard error] की गणना 3.5 की गई है। अतः 95% कॉन्फिडेंस अन्तराल निम्न के मध्य होगा :

- (1) 11.5 से 18.5
- (2) 8.14 से 21.86
- (3) 5.98 से 24.01
- (4) अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है।

85. हमारे सेमपल में पाए गए परिणामों के पैटर्न, उन परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जो कि पूरे पोपुलेशन से प्राप्त किए जाएंगे।

इसका कारण हो सकता है :

- (1) चयन त्रुटि
- (2) पोपुलेशन (समग्र) विशिष्टता त्रुटि
- (3) दोनों विकल्प (1) और (2)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

86. निम्नलिखित में से कौनसी कंडीशनल (शर्तयुक्त) प्रायिकता [conditional probability] नहीं है ?

- (1) चलते समय गिरने की प्रायिकता
- (2) बिना पुनरीक्षण के अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता
- (3) कोविड रोगियों हेतु अस्पताल में काम करते हुए, कोविड पोजिटिव होने की प्रायिकता
- (4) खतरनाक खेल खेलते समय खेल में चोट से पीड़ित होने की प्रायिकता

87. निम्नलिखित में से कौनसा सही कथन है ?

- (1) बिना शर्त प्रायिकता [Unconditional Probability] एक घटना की संभावना है जो एक या अधिक अन्य घटनाओं के साथ सम्बन्धित है।
- (2) कई सेमपल माध्यों का माध्य, पोपुलेशन माध्य का सबसे अच्छा अनुमान देता है।
- (3) वितरण के प्रमाण विचलन को सेमपलिंग त्रुटि कहा जाता है।
- (4) जितना बड़ा सेमपल का आकार होगा, उतनी ही बड़ी सेमपलिंग त्रुटि [Sampling error] होगी।

84. The standard error has been calculated as 3.5 and the sample mean is 15.00 Thus the 95% confidence interval lies between

- (1) 11.5 to 18.5
- (2) 8.14 to 21.86
- (3) 5.98 to 24.01
- (4) Insufficient information is available.

85. Pattern of results found in our samples do not represent the results that would be obtained from the entire population. This may happen due to

- (1) Selection error
- (2) Population specification error
- (3) Both option (1) and (2)
- (4) None of the above

86. Which of the following is not a conditional probability ?

- (1) The probability of falling down while walking.
- (2) The probability of passing your exam without any revision.
- (3) The probability of being COVID positive, whilst working in a hospital COVID patients.
- (4) The probability of suffering a sports injury while playing dangerous game.

87. Which of the following is correct statement ?

- (1) Unconditional probability is the probability of one event occurring with some relationship to one or more other events.
- (2) The mean of several sample means gives the best estimate of the population means.
- (3) The standard deviation of the distribution is called the sampling error.
- (4) The larger the sample size the larger the sampling error.

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

88. $p < .05$ की व्याख्या कैसे की जा सकती है ?

- (1) हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं कि माध्यों में कोई अन्तर नहीं है और निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अन्तर विद्यमान है।
- (2) यदि शून्य परिकल्पना सत्य थी तो केवल संयोग से होने वाले परिणाम की संभावना 40 में से 2 से कम है।
- (3) यदि शून्य परिकल्पना सत्य थी तो डेटा प्राप्त करने की प्रायिकता 5% से कम है।
- (4) उपरोक्त सभी

89. प्रसरण विश्लेषण द्वारा _____ किया जाता है।

- (1) z परीक्षण
- (2) F परीक्षण
- (3) t परीक्षण
- (4) काई वर्ग परीक्षण

90. निम्नलिखित में से कौन एक सहसम्बन्ध गुणांक हो सकता है ?

- (1) +0.40
- (2) -0.37
- (3) + 1.00
- (4) उपरोक्त सभी

91. गुडनेस ऑफ फिट परीक्षण का उपयोग करते हुए, हम आकलन कर सकते हैं कि क्या एक सेट की _____ आवृत्तियाँ, अपेक्षित आवृत्तियों से भिन्न हैं।

- (1) प्राप्त [Obtained]
- (2) स्वतंत्र [Independent]
- (3) लगातार [Constant]

88. How can $p < .05$ be interpreted ?

- (1) We reject the null hypothesis that there's no difference between the means and conclude that a significant difference does exist.
- (2) There is a less than 2 in 40 probability of the result occurring by chance alone if the null hypothesis were true.
- (3) The probability of obtaining the data if the null hypothesis were true is less than 5%.
- (4) All of the above

89. Analysis of variance performs

- (1) z-test
- (2) F-test
- (3) t-test
- (4) Chi-square test

90. Which of the following could be a correlation coefficient ?

- (1) + 0.40
- (2) - 0.37
- (3) + 1.00
- (4) All of the above

91. Using a Goodness of Fit test, we can assess whether a set of _____ frequencies differ from expected frequencies.

- (1) obtained
- (2) independent
- (3) constant

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

92. मान लीजिए कि आप कुछ डेटा पर काई-स्क्वायर परीक्षण लागू करना चाहते हैं। परीक्षण की उपयोगिता के लिए किस प्रकार का डेटा उचित होगा ?

- (1) फ्रिक्वेंसी (आवृत्तियाँ) काउन्ट
- (2) प्राचल
- (3) क्रम में जमाये हुए समंक
- (4) सतत गणना (स्कोर)

93. _____ परीक्षण, ग्रुप मीन [Group mean] और ग्रैंड मीन [Grand mean] के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है।

- (1) सहसम्बन्ध
- (2) सम्बन्धित एवं स्वतन्त्र एनोवा [ANOVA's]
- (3) स्वतंत्र t - परीक्षण
- (4) साहचर्य के माप (मेजर्स ऑफ असोसिएशन)

94. इंडेक्स नंबरों के निर्माण में सबसे अच्छा औसत कौन सा है ?

- (1) अंकगणितीय माध्य
- (2) माध्यिका
- (3) ज्यामितीय (गुणोत्तर) माध्य
- (4) हरात्मक माध्य

95. वह मूल्य सूचकांक जो आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में उपयोग में लेता है, _____ कहलाता है।

- (1) लैसपेयरस सूचकांक (Laspeyres Index)
- (2) पाशे सूचकांक (Paasche Index)
- (3) फिशर का आदर्श सूचकांक
- (4) थोक मूल्य सूचकांक

92. Suppose you want to apply Chi-square test on some data. What sort of data will be appropriate for application of test ?

- (1) Frequency counts
- (2) Parameters
- (3) Rank ordered data
- (4) Continuous scores

93. _____ tests for differences between Group Means and the Grand Mean.

- (1) Correlations
- (2) Related and independent ANOVA's
- (3) Independent t-test
- (4) Measures of association

94. Which is the best average used in the construction of index numbers ?

- (1) Arithmetic mean
- (2) Median
- (3) Geometric mean
- (4) Harmonic mean

95. The price index that uses base year quantities as weights, is called _____.

- (1) Laspeyres index
- (2) Paasche index
- (3) Fisher's ideal index
- (4) Wholesale price index

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

96. निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कोर्पोरेट वित्तीय निर्णय लेने से सम्बन्धित है ?

- (1) किसी कम्पनी को कितना निवेश करना चाहिए ?
- (2) किस प्रकार के वित्त की आवश्यकता है ?
- (3) कम्पनी की वित्तीय जरूरत कितनी है ?
- (4) उपरोक्त सभी

97. असममित जानकारी की श्रेणी में क्या आता है ?

- (1) कम्पनी खाता और चिट्ठा सभी शेयरधारकों द्वारा समझ में नहीं आती हैं ।
- (2) कम्पनी की AGM या व्यवहारात्मक बैठकों में सभी शेयरधारकों द्वारा भाग नहीं लिया जाता है ।
- (3) एक वित्तीय लेनदेन के बारे में एक पक्ष की तुलना में अन्य पक्ष को अधिक जानकारी होती है ।
- (4) उपरोक्त सभी

98. शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति के अधीन

- (1) यदि एन.पी.वी. (NPV) पॉजिटिव है तो एक परियोजना का चयन किया जा सकता है ।
- (2) यदि एन.पी.वी. (NPV) शून्य है तो भी एक परियोजना का चयन किया जा सकता है ।
- (3) विकल्प (1) और (2) दोनों को लिया जा सकता है ।
- (4) यदि एन.पी.वी. (NPV) नकारात्मक है तो एक परियोजना का चयन किया जा सकता है ।

96. Which of the following is exclusively related to corporate financial decision making ?

- (1) How much a company should invest ?
- (2) Which type of finance is required ?
- (3) How much is the financial need of a company ?
- (4) All of the above

97. What comes under the category of Asymmetric information ?

- (1) Company account and balance sheets are not understood by all shareholders.
- (2) Company's AGM or strategic meetings are not attended by all shareholders.
- (3) One party to a financial transaction has more information than another party.
- (4) All of the above

98. Under Net Present Value method

- (1) A project may be selected if its NPV is positive.
- (2) A project may be selected if its NPV is zero.
- (3) Both option (1) and (2) may be taken.
- (4) A project should be selected if

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

www.prepp.in निम्नलिखित में से कौनसा ARR के बारे में सही नहीं है ?

- (1) ए आर आर (ARR) लेखांकन अवधारणाओं पर आधारित है जैसे लेखांकन लाभ और मूल्यहास
- (2) ए आर आर (ARR) मुद्रा के समय मूल्य को ध्यान में रखता है।
- (3) ए आर आर (ARR) के तहत, बाधा दर (Hurdle Rate) विवेकाधीन है।
- (4) ए आर आर (ARR) का आशय / पूरा नाम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है।

100. फर्म का मूल्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है ?

- (1) परिसम्पत्तियों और दायित्वों को जोड़कर उनका मूल्य
- (2) ऋण एवं समता (इक्विटी) का मूल्य
- (3) ऋण का मूल्य
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

101. मूल्य-अर्जन मूल्यांकन [Price-earnings valuations] के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (1) मूल्य-अर्जन मूल्यांकन आमतौर पर परिचालन लाभ पर आधारित होते हैं।
- (2) मूल्य-अर्जन मूल्यांकन आमतौर पर ई बी आई टी [EBIT] पर आधारित होते हैं।
- (3) मूल्य-अर्जन मूल्यांकन आमतौर पर सकल लाभ पर आधारित होते हैं।
- (4) मूल्य-अर्जन मूल्यांकन आमतौर पर मुक्त नकद प्रवाह पर आधारित होते हैं।

102. निम्नलिखित में से किसे वृद्धिशील नकद प्रवाह [incremental cash flow] के हिस्से के रूप में गिना जाएगा ?

- (1) ब्याज
- (2) डूबत लागत [Sunk Cost]
- (3) मूल्यहास
- (4) कार्यशील पूँजी में बदलाव

99. Which of the following is not correct about ARR ?

- (1) ARR is based on accounting concepts such as accounting profit and depreciation.
- (2) ARR takes account of the time value of money.
- (3) Under ARR, the hurdle rate is arbitrary.
- (4) ARR means Accounting Rate of Return.

100. Value of the firm is usually based on which of following ?

- (1) The value of assets plus liabilities.
- (2) The value of debt and equity.
- (3) The value of debt.
- (4) None of the above

101. Which one of the following is correct about price-earnings valuations ?

- (1) Price-earnings valuations are usually based on Operating profit.
- (2) Price-earnings valuations are usually based on EBIT.
- (3) Price-earnings valuations are usually based on Gross profit.
- (4) Price-earnings valuation are usually based on free cash flow.

102. Which of the following would be counted as part of incremental cash flow ?

- (1) Interest
- (2) Sunk cost
- (3) Depreciation
- (4) Change in working capital

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

103. निम्नलिखित में से कौनसा मुक्त नकद प्रवाह [free cash flow] को परिभाषित करता है ?

- (1) शुद्ध लाभ + मूल्यहास + ब्याज - पूँजीगत व्यय - शुद्ध कार्यशील पूँजी में परिवर्तन
- (2) सकल लाभ + मूल्यहास + ब्याज - पूँजीगत व्यय - शुद्ध कार्यशील पूँजी में परिवर्तन
- (3) कर के बाद परिचालन आय + कर ढाल + मूल्यहास + ब्याज - पूँजीगत व्यय - शुद्ध कार्यशील पूँजी में परिवर्तन
- (4) कर के बाद परिचालन आय + मूल्य हास + ब्याज - पूँजीगत व्यय - शुद्ध कार्यशील पूँजी में परिवर्तन

104. निम्नलिखित में से क्या परियोजना की समाप्ति के बाद गणित किया जाता है ?

- (1) कार्यशील पूँजी रिलीज करना
- (2) स्क्रेप (अवशिष्ट) मूल्य
- (3) निरन्तरता मूल्य
- (4) उपरोक्त सभी

105. कथन-I : उन परियोजनाओं की तुलना करने के लिए, जिनके जीवन अवधि [life-spans] अलग-अलग है, उस परियोजना का चयन करते हैं जिसकी अदायगी अवधि छोटी हो।

कथन-II : उन परियोजनाओं की तुलना करने के लिए, जिनके जीवन अवधि [life-spans] अलग-अलग है, हम उस परियोजना का चयन करते हैं जिसकी pay-back अवधि बड़ी हो।
उपरोक्त कथन में से कौनसा सही है ?

- (1) कथन I
- (2) कथन II
- (3) कथन I और II

103. Which of the following defines free cash flow ?

- (1) Net profit + depreciation + interest - capital expenditures - change in net working capital.
- (2) Gross profit + depreciation + interest - capital expenditures - change in net working capital.
- (3) After tax operating income + tax shield + depreciation + interest - capital expenditures - change is net working capital.
- (4) After tax operating income + depreciation + interest - capital expenditures - change in net working capital.

104. Which of the following would be counted after the end of a project ?

- (1) Release of working capital
- (2) Scrap value
- (3) Continuation value
- (4) All of the above

105. Statement I : To compare the projects which has different life-spans, we select the project with the shorter payback period.

Statement II : To compare the projects which has different life-spans, we select the project with the longer payback period.

Which of the above statement(s) is correct ?

- (1) Statement I
- (2) Statement II

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

- (1) जब हम आई आर आर [IRR] का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- (2) जब पूँजी राशन की जाती है।
- (3) जब आई आर आर [IRR] और एनपीवी [NPV] एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं।
- (4) उपरोक्त सभी स्थितियों में

107. गियरिंग के बारे में सामान्य तथ्य कौनसा सही है ?

- (1) गियरिंग उन प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है जिससे अधिक परिवर्तनशील लागत, व्यावसायिक परिणामों की अधिक परिवर्तनीयता की ओर ले जाता है।
- (2) गियरिंग उन प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है जिससे अधिक स्थिर लागत, व्यावसायिक परिणामों को कम परिवर्तनीयता की ओर ले जाता है।
- (3) उच्च पूँजी गियरिंग अनुपात बताता है कि यदि एक कम्पनी के व्यापार में मंदी है तो वह कम्पनी अपने स्थाई वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।
- (4) गियरिंग उन प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है जिससे अधिक परिवर्तनशील लागत, व्यावसायिक परिणामों को कम परिवर्तनीयता की ओर ले जाता है।

106. Profit investment Ratio is used in which of the following situation ?

- (1) When we cannot use IRR.
- (2) When capital is rationed.
- (3) When IRR and NPV conflicts to each other.
- (4) In all of the above situations.

107. What is the general phenomenon about gearing is true ?

- (1) Gearing represents the effects whereby greater variable cost leads to greater variability of business outcome.
- (2) Gearing represents the effect whereby greater fixed cost leads to less variability of business outcome.
- (3) High Capital gearing ratio suggests that a company may not be able to meet its fixed financial obligations if its business slowdowns.
- (4) Gearing represents the effect whereby greater variable cost leads to less variability of business outcome.

108. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : फर्म के लिए ऋण [Debt] जोखिम भरा है जबकि निवेशकों के लिए इक्विटी जोखिम भरा है।

कथन-II : व्यवसाय में मंदी की स्थिति में, निम्न पूँजी गियरिंग [low Capital Gearing] फर्म के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सापेक्ष जोखिम के सन्दर्भ में सही है ?

- (1) कथन I
- (2) कथन II
- (3) अधूरी जानकारी उपलब्ध है।
- (4) कथन I और II दोनों

109. मान लीजिए कि बाजार में अपूर्ण और असममित जानकारी की उपलब्धता की स्थिति है और एक कम्पनी द्वारा लाभांश में कटौती का संकेत है। शेयर बाजार इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगा ?

- (1) कम्पनी के शेयर की कीमत घटेगी।
- (2) कम्पनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी।
- (3) बाजार प्रतिक्रिया नहीं करता है, कम्पनी का शेयर मूल्य समान रहता है।
- (4) यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार द्वारा जानकारी की व्याख्या किस प्रकार की जाती है।

110. निम्न में से कौनसा कारक, लाभांश नीति को प्रभावित करता है ?

- (1) लाभों की स्थिति
- (2) व्यापार चक्र की अवस्था
- (3) कोषों की तरलता
- (4) उपरोक्त सभी

108. Following two statements are given :

Statement I : Debt is risky for the firm, while equity is risky for the investor.

Statement II : In business slow down situation low capital gearing is relatively suitable for the firm.

Which of above statement is correct in terms of relative risk ?

- (1) Statement I
- (2) Statement II
- (3) Incomplete information is available.
- (4) Both Statement I and II

109. Suppose there is a situation of availability of imperfect and asymmetric information in the market and there is a signal of cut in dividend by a company. How stock market will react to this situation ?

- (1) Share price of company will decrease.
- (2) Share price of company will increase.
- (3) The market does not react, share price of company remains the same.
- (4) It depends on how the information is interpreted by the market.

110. Which of the following is factor affecting Dividend policy ?

- (1) Position of profits.
- (2) Position of business cycle
- (3) Liquidity in capital requirements.

Prepp+ Subscription

Only (₹999) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

- (1) कोई कर नहीं है ।
- (2) प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन की लागत शून्य है ।
- (3) फर्म की विनियोग नीति, फर्म की लाभांश नीति से स्वतंत्र होती है ।
- (4) उपरोक्त सभी

112. निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूँजी से वित्तपोषित होगा ?

- (1) लेनदार खाते
- (2) देनदार खाते
- (3) प्राप्य विपत्र
- (4) उपरोक्त सभी

113. चल अनुपात व त्वरित अनुपात के मध्य क्या अन्तर है ?

- (1) चल अनुपात में हम भौतिक पूँजी को सम्मिलित करते हैं और त्वरित अनुपात में हम इसे सम्मिलित नहीं करते हैं ।
- (2) चल अनुपात में हम भौतिक पूँजी को सम्मिलित नहीं करते हैं और त्वरित अनुपात में हम इसे सम्मिलित करते हैं ।
- (3) चल अनुपात में हम इन्वेंट्री को सम्मिलित करते हैं और त्वरित अनुपात में हम इसे सम्मिलित नहीं करते हैं ।
- (4) चल अनुपात में हम इन्वेंट्री को सम्मिलित नहीं करते हैं और त्वरित अनुपात में हम इसे सम्मिलित करते हैं ।

114. पूँजी गियरिंग अनुपात निम्नलिखित में से किसके बीच सम्बन्ध को दर्शाता है ?

- (1) ऋण और पूँजी
- (2) समता अंशधारियों के कोष और दीर्घकालिक उधार के कोष
- (3) सम्पत्ति और पूँजी
- (4) ऋणपत्र और शेयर पूँजी

111. Which of the following is a Fundamental assumption made by Modigliani and Miller model ?

- (1) There are no taxes.
- (2) Transaction cost for buying and selling of securities is nil.
- (3) The investment policy of a firm is independent from dividend policy.
- (4) All of the above

112. Which of the following would be financed from working capital ?

- (1) Account payable
- (2) Accounts receivable
- (3) Bills receivable
- (4) All of the above

113. What is the difference between the current ratio and the quick ratio ?

- (1) In current ratio we include physical capital and in quick ratio we do not include it.
- (2) In current ratio we do not include physical capital and in quick ratio we do include it.
- (3) In current ratio we include inventories and in quick ratio we do not include it.
- (4) In current ratio we do not include inventories and in quick ratio we do include it.

114. Capital Gearing Ratio denotes the relationship between which of following ?

- (1) Loans and capital.
- (2) Equity shareholders funds and long term borrowed funds.
- (3) Assets and capital.
- (4) Debentures and share capital.

115. भारत में फिनटेक स्टार्टअप निम्नलिखित में से कौन सा है ?

- (1) सी आर ई डी (CRED) और फिनली (Finly)
- (2) पेटीएम (PayTm) और मोबिक्विक (Mobikwik)
- (3) दोनों विकल्प (1) और (2)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

116. वित्तीय प्रौद्योगिकी [Financial Technology] का उपयोग निम्नलिखित में से किसको स्वचालित करने के लिए किया गया है ?

- (1) पैसों का स्थानान्तरण और बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसा जुटाना
- (2) निवेश और बीमा
- (3) दोनों विकल्प (1) और (2)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

117. बोनस निर्गमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (1) वास्तविक लाभ में से बनाए गए स्वतन्त्र कोषों [Free Reserves] से बोनस का निर्गमन किया जाएगा ।
- (2) अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए कोष पूँजीकृत नहीं होते हैं जब बोनस निर्गमन होते हैं ।
- (3) लाभांश के बदले बोनस इश्यू की घोषणा नहीं की जाती है ।

115. Which one of the following is FinTech Startup in India ?

- (1) CRED and Finly
- (2) PayTm, and MobiKwik
- (3) Both option (1) and (2)
- (4) None of the above

116. Financial Technology has been used to automate which of following ?

- (1) Money transfers and raising money for a business startup.
- (2) Investment and insurance.
- (3) Both options (1) and (2).
- (4) None of the above

117. Which one of the following is true about the bonus issue ?

- (1) The bonus issue shall be made out of free reserves built out of the genuine profits.
- (2) Reserves created by revaluation of fixed assets are not capitalized at the time of bonus issue.
- (3) The declaration of bonus issue, in lieu of dividend, is not made.

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) सीमान्त लागत प्रणाली, लागत निर्धारण की एक स्वतन्त्र प्रणाली है।
- (2) सीमान्त लागत प्रणाली में लागत के सभी घटकों को स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के घटकों में विभाजित किया जाता है।
- (3) सीमान्त लागत प्रणाली में स्थिर लागत को उत्पाद लागत के रूप में माना जाता है।
- (4) सीमान्त लागत प्रणाली, लागत विश्लेषण की एक तकनीक नहीं है।

119. निम्नलिखित में से कौन सी सीमान्त लागत प्रणाली के तहत एक मान्यता नहीं है ?

- (1) सभी लागतों को स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में बांटा जा सकता है।
- (2) सम्पूर्ण उत्पादन मात्रा के लिए, स्थिर लागतें अपरिवर्तनीय या स्थिर रहती हैं।
- (3) परिवर्तनशील लागत, उत्पादन की प्रति इकाई के साथ स्थिर नहीं रहती हैं।
- (4) क्रियाकलापों के सभी स्तरों पर विक्रय मूल्य प्रति इकाई अपरिवर्तित या स्थिर रहता है।

120. निम्न में से कौनसा कोषों का स्रोत है ?

- (1) नकद के लिए अंशों का निर्गमन
- (2) स्थाई सम्पत्तियों का विक्रय
- (3) कार्यशील पूँजी में कमी
- (4) उपरोक्त सभी

118. Which of the following statements about marginal costing is true ?

- (1) Marginal costing is an independent system of costing.
- (2) In marginal costing all elements of cost are divided into fixed and variable components.
- (3) In marginal costing fixed costs are treated as product cost.
- (4) Marginal costing is not a technique of cost analysis.

119. Which of the following is not a assumption under Marginal Costing ?

- (1) Cost can be divided into fixed and variable cost.
- (2) Fixed costs remain unchanged or constant for the entire volume of production.
- (3) Variable cost does not remain constant with per unit of output.
- (4) The selling price per unit remains unchanged or constant at all levels of activity.

120. Which of the following are sources of funds ?

- (1) Issue of shares for cash
- (2) Sale of fixed assets
- (3) Decrease in working capital
- (4) All of the above

121. ऋण पूँजी की लागत की गणना निम्नलिखित में से किसके आधार पर की जाती है ?

- (1) वार्षिक आय
- (2) वार्षिक ब्याज
- (3) वार्षिक मूल्यहास
- (4) शुद्ध पूँजी

122. लाभांश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

- (1) लाभांश अक्सर किसी कम्पनी की व्यूहरचना का हिस्सा होते हैं। फिर भी कम्पनी लाभांश के द्वारा शेयरधारकों को पुनःभुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है।
- (2) स्थिर, स्थाई और अवशिष्ट [Stable, constant and residual] तीन प्रकार की लाभांश नीतियाँ हैं।
- (3) ग्राहकों की अपेक्षाओं को ही देखते हुए लाभांश नीति तैयार की जानी चाहिए।
- (4) विकल्प संख्या (1) और (2) केवल

123. निम्न में से कौनसा, लाभांश नीति के सन्दर्भ में गार्डन का सूत्र है ?

- (1) $P = \frac{D}{K_e}$
- (2) $P_0 = \frac{P_1 + D_1}{1 + K_e}$
- (3) $P = \frac{I}{NP} \times 100$
- (4) $P = \frac{D}{NP}$

121. The cost of debt capital is calculated on the basis of which of following ?

- (1) Annual proceeds
- (2) Annual interest
- (3) Annual depreciation
- (4) Net Capital

122. Which of the following is correct about the dividend policy ?

- (1) Dividends are often part of a company's strategy. However, they are under no obligation to repay shareholders using dividends.
- (2) Stable, constant and residual are the three types of dividend policy.
- (3) Dividend policy should be framed by looking at the customers' expectations only.
- (4) Option no. (1) and (2) only.

123. Which of the following is Gordon's formula in relation to dividend policy ?

- (1) $P = \frac{D}{K_e}$
- (2) $P_0 = \frac{P_1 + D_1}{1 + K_e}$
- (3) $P = \frac{I}{NP} \times 100$
- (4) $P = \frac{D}{NP}$

बाजार की क्रिया से सम्बन्धित है :

- (1) विदेशी मुद्रा की बिक्री एवं खरीद
- (2) कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद
- (3) जी. प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्याज दरें तय करना

125. CAMEL मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है ?

- (1) प्रबंधन (Management)
- (2) साख (Credit)
- (3) सम्पत्तियाँ (Assets)
- (4) अर्जन (Earnings)

126. IDBI के सहयोग से निर्मित संस्थान है

- (1) सिडबी (SIDBI)
- (2) एस.एच.सी.आई.एल. (SHCIL)
- (3) एन.एस.ई. (NSE)
- (4) उपरोक्त सभी

127. आर्थिक प्रणाली में तरलता नियंत्रित होती है -

- (1) RBI द्वारा अतिरिक्त तरलता के समय प्रतिभूतियों की खरीद का सहारा लेकर
- (2) तंग तरलता के समय RBI द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के माध्यम से
- (3) RBI द्वारा अतिरिक्त तरलता के समय प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेकर
- (4) तंग तरलता के समय सरकार द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के माध्यम से

128. निम्न में से किसे गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है ?

- (1) संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ
- (2) उप-प्रमाणित परिसम्पत्तियाँ
- (3) हानि या अशोध्य परिसम्पत्तियाँ
- (4) उपरोक्त सभी

124. Which of the following is related to Open Market Operations of RBI ?

- (1) Sell and purchase of Foreign Currency.
- (2) Sell and purchase of Corporate Securities.
- (3) Sell and purchase of G. Securities.
- (4) Deciding the Interest Rates in the International Market.

125. Which one of the following is not the component in CAMEL Model ?

- (1) Management
- (2) Credit
- (3) Assets
- (4) Earnings

126. Institutions built with the support of IDBI are

- (1) SIDBI
- (2) SHCIL
- (3) NSE
- (4) All of above

127. Liquidity is controlled in the economic system by

- (1) RBI by resorting to purchase of securities at the time of excess liquidity.
- (2) RBI through buying securities at times of tight liquidity.
- (3) RBI by resorting to sale of securities at times of excess liquidity.
- (4) Government through buying securities at times of tight liquidity.

128. Which of the following is included in Non-performing Assets category ?

- (1) Doubtful Assets
- (2) Sub-standard Assets
- (3) Loss Assets
- (4) All of the above

129. रेपो और रिवर्स रेपो उपकरण से आपका क्या आशय है ?

- (1) रेपो के तहत और रिवर्स रेपो के तहत, आर.बी.आई. वाणिज्यिक बैंको से उधार लेती है।
- (2) रेपो के तहत, आरबी.आई. वाणिज्यिक बैंको से उधार लेता है और रिवर्स रेपो के तहत, आर.बी.आई. वाणिज्यिक बैंको को उधार देता है।
- (3) रेपो के तहत, आर.बी.आई. वाणिज्यिक बैंको को उधार देता है और रिवर्स रेपो के तहत, आर.बी.आई. वाणिज्यिक बैंको से उधार लेता है।
- (4) रेपो के तहत और रिवर्स रेपो के तहत, वाणिज्यिक बैंक आर.बी.आई. से उधार लेते हैं।

130. ऋण पूँजी एवं तरजीही शेयर वित्त के हाइब्रिड को किस रूप में जाना जाता है :

- (1) प्रारंभिक चरण का वित्त पोषण
- (2) कार्यशील पूँजी ऋण
- (3) स्रोतों का विस्तार
- (4) मेजेनाइन फंडिंग

131. निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश बैंकर के कार्यों के बारे में गलत है ?

- (1) वे निवेशकों को खोजने में निगमों की मदद करते हैं।
- (2) वे अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं।
- (3) वे विलय और अधिग्रहण में अपने ग्राहकों की मदद करते हैं।
- (4) वे वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते

129. What do you mean by Repo and reverse Repo instruments ?

- (1) Under Repo and under Reverse Repo, the RBI borrow from Commercial Banks.
- (2) Under Repo, the RBI borrows from the Commercial Banks and under Reverse Repo, RBI lends to Commercial Banks.
- (3) Under Repo, the RBI lends to Commercial Banks and under Reverse Repo, RBI borrows from Commercial Banks.
- (4) Under Repo and under Reverse Repo, Commercial Banks borrow from the RBI.

130. Hybrid of debt and preferred stock finance is known as

- (1) Early stage funding
- (2) Working capital loan
- (3) Expansion funding
- (4) Mezzanine funding

131. Which of the following is incorrect about functioning of an investment banker ?

- (1) They help corporations in finding the investors.
- (2) They take deposits from their customers.
- (3) They help their customers in mergers and acquisitions.
- (4) They act as financial

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

- (1) रेपो लेनदेन को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और आर.बी.आई. द्वारा अधिकृत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कारोबार किया जा सकता है।
- (2) रेपो लेनदेन का कारोबार दो पक्षों के बीच किया जा सकता है, जिनमें से एक बैंकिंग इकाई होनी चाहिए।
- (3) रेपो लेनदेन में एक इकाई के रूप में RBI होना चाहिए।
- (4) उपरोक्त सभी

133. निम्नलिखित में से कौनसी माइक्रो फाइनेंस कम्पनी है जो वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिचालन शुरू करने वाली पहली कम्पनी बन गई है ?

- (1) PayTm बैंक
- (2) वोडाफोन m-Pesa बैंक
- (3) ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक
- (4) बंधन बैंक

134. भारत में वाणिज्यिक बैंको का बीमा सीधे निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जा सकता है ?

- (1) आई.आर.डी.ए.
- (2) आर.बी.आई.
- (3) डी.आई.सी.जी.सी.
- (4) ई.सी.जी.सी.

135. सिडबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ?

- (1) SIDBI का पूरा नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है।
- (2) SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल, 1980 को हुई थी।
- (3) SIDBI एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है।
- (4) लखनऊ (यू.पी.) में SIDBI का प्रधान कार्यालय है।

132. Which of the following is true ?

- (1) Repo transactions may be traded on any recognized stock exchange and any electronic trading platform duly authorized by RBI.
- (2) Repo transactions may be traded between two parties, one of whom should be a banking entity.
- (3) Repo transactions must have RBI as one entity.
- (4) All of the above

133. Which of the following is the micro finance company that becomes the first to start operations as a Commercial Bank ?

- (1) PayTm Bank
- (2) Vodafone m-Pesa Bank
- (3) AU Small Finance Bank
- (4) Bandhan Bank

134. Commercial Banks in India may be insured by which of the following institute directly ?

- (1) IRDA
- (2) RBI
- (3) DICGC
- (4) ECGC

135. Which of the following is not correct about SIDBI ?

- (1) The full name of SIDBI is Small Industries Development Bank of India.
- (2) SIDBI was established on April 2, 1980.
- (3) SIDBI is the principal financial institution for the MSME sector.
- (4) SIDBI has its head office at Lucknow (U.P.)

136. निम्नलिखित में से कौनसा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है ?

- (1) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
- (2) ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक
- (3) स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम
- (4) एक्सिस बैंक

137. "संचयों का आधिक्य नहीं" की स्थिति में, बैंक क्या करता है ?

- (1) अन्य बैंक से जमा उधार लेता है।
- (2) सीधे केन्द्रीय बैंक से जमा उधार लेता है।
- (3) बैंक उच्च ब्याज दर निर्धारित करता है।
- (4) विकल्प (1) और (2)

138. बी.एफ.एस. का पूरा नाम क्या है ?

- (1) बैंक फॉर फाइनेन्सियल सिक्यूरिटीज
- (2) बोर्ड फॉर फाइनेन्सियल सुपरविजन
- (3) बैंक फॉर फॉरेन सिक्यूरिटीज
- (4) बोर्ड फॉर फंडिंग एण्ड सिक्यूरिटाइजेशन

139. निम्नलिखित में से कौनसा एकमात्र सही कथन है ?

- (1) औद्योगिक क्षेत्र की मंदी आमतौर पर निर्यात में कमी के कारण है।
- (2) मुद्रा बाजारों द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाता है।
- (3) RBI चल विनिमय दरों को तय करने का सर्वोच्च अधिकारी है।
- (4) RBI द्वारा दिए गए "Ways and Means advances" (अर्थोपाय अग्रिम) राज्यों द्वारा पुर्नभुगतान किए जाते हैं।

140. निम्नलिखित में से कौनसा सही कथन नहीं है ?

- (1) नाबार्ड कृषि साख और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार, आर.बी.आई. और राज्य सरकारों के नीति निर्माण में सहायता करता है।
- (2) नाबार्ड निवेश साख के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त देता है (केवल अल्पकालिक ऋण)
- (3) नाबार्ड उत्पादन और विपणन साख के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त देता है।
- (4) नाबार्ड ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और

136. Which of the following banks is not regulated by RBI ?

- (1) State Bank of Travancore
- (2) AU Small Finance Bank
- (3) State Bank of Sikkim
- (4) AXIS Bank

137. In the situation of 'no excess reserves', what does a bank do ?

- (1) Borrow reserves from another Bank.
- (2) Borrow reserves directly from the Central Bank.
- (3) The Bank set a higher interest rate.
- (4) Option (1) and (2)

138. What is the full form of B.F.S. ?

- (1) Bank for Financial Securities
- (2) Board for Financial Supervision
- (3) Bank for Foreign Securities
- (4) Board for Funding and Securitization

139. Which among the following is the only correct statement ?

- (1) Industrial sector recession is normally due to decrease in exports.
- (2) Long term financial needs may be fulfilled by money markets.
- (3) RBI is the supreme authority to fix the floating Exchange Rates.
- (4) "Ways and means advances" given by RBI are repayable by State Governments.

140. Which of the following is not correct statement ?

- (1) NABARD assist in policy formulation of GoI, RBI and State Governments on matters related to Agricultural Credit and Rural Development.
- (2) NABARD refinance to Rural Financial Institutions for investment credit (short term loan only)
- (3) NABARD refinance to Rural Financial Institutions for production and marketing credit.
- (4) NABARD provides Loans to State Governments for

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+

Exams

1 Year

Full Access

50,000+

Mock tests

10,000+

Pyp's

Unlock Your Success Today!



LIMITED
TIME OFFER

141. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत है ?

- (1) व्यापारी
- (2) सहकारी बैंक
- (3) भूमि धारक
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

142. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गई :

- (1) अप्रैल, 1949 में
- (2) अप्रैल, 1935 में
- (3) जनवरी, 1949 में
- (4) जनवरी, 1935 में

143. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार नहीं है ?

- (1) वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के लिए अधिनियम
- (2) मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अधिनियम
- (3) ब्याज दरों का अविनियमन
- (4) कर की दरों में प्रगतिशील वृद्धि

144. नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी ?

- (1) क्रॉफी (Crofee) समिति
- (2) टंडन समिति
- (3) सिवारमन समिति
- (4) नरसिम्हम (Narasimham) समिति

145. आई.डी.बी.आई. धन्वंतरि ऋण के लिए पात्र सेगमेंट क्या है ?

- (1) कोई भी एम.एस.एम.ई. (लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग)
- (2) कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर
- (3) कोई भी व्यक्ति जिसकी ऋण क्षमता हो
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

141. Which of the following is the institutional source of rural Credit in India ?

- (1) Traders
- (2) Co-operative Bank
- (3) Land holders
- (4) None of the above

142. Reserve Bank of India (RBI) was established in

- (1) April, 1949
- (2) April, 1935
- (3) January, 1949
- (4) January, 1935

143. Which of the following is not a banking sector reform in India ?

- (1) Act for Securitization and Reconstruction of Financial Assets.
- (2) Act for prevention of Money Laundering.
- (3) Deregulation of Interest rates.
- (4) Progressive increase in tax rates.

144. NABARD was established on the recommendation of which of following Committee ?

- (1) Crofee Committee
- (2) Tandon Committee
- (3) Sivaraman Committee
- (4) Narasimham Committee

145. What is the eligible segment for IDBI Dhanvantri Loan ?

- (1) Any MSME
- (2) Any Medical Practitioners
- (3) Anyone who is credit worthy
- (4) None of the above

Prepp+ Subscription

Only (~~₹999~~) **₹249/year**

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

146. 2006 में IDBI Ltd. के साथ निम्नलिखित में से किसको समामेलित किया गया ?

- (1) यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक
- (2) IDBI होम फाइनेंस लिमिटेड
- (3) IDBI गिल्ट्स लिमिटेड
- (4) उपरोक्त सभी

147. निम्नलिखित में से कौन IFCI लिमिटेड की सहायक कम्पनी है ?

- (1) IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
- (2) एम.पी.सी.ओ.एन.
- (3) स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- (4) उपरोक्त सभी

148. निम्नलिखित में से किसकी SIDBI में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है ? (अक्टूबर 2020 को)

- (1) भारत सरकार
- (2) भारतीय स्टेट बैंक
- (3) नाबार्ड
- (4) एल.आई.सी.

149. _____ की अधिसूचना के तहत, SFCs अधिनियम, 1951 के तहत, राजस्थान वित्तीय निगम (RFC) का गठन किया गया था।

- (1) 17 जनवरी, 1961
- (2) 19 जनवरी, 1973
- (3) 17 जनवरी, 1955
- (4) 19 जनवरी, 1955

150. कम्पनी अधिनियम, 2013 की किस धारा के तहत, यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड [UTIITSL] को सरकारी कम्पनी माना गया है ?

- (1) धारा 2 (45)
- (2) धारा 3

146. Which of the following amalgamated with IDBI Ltd. in 2006 ?

- (1) United Western Bank
- (2) IDBI Home Finance Ltd.
- (3) IDBI Gilts Ltd.
- (4) All of the above

147. Which of the following is subsidiary of IFCI Limited ?

- (1) IFCI Venture Capital Funds Ltd.
- (2) MPCON
- (3) Stock Holding Corporation of India
- (4) All of the above

148. Which of the following have biggest shareholding in SIDBI ? (As on October, 2020)

- (1) Government of India
- (2) State Bank of India
- (3) NABARD
- (4) L.I.C.

149. Under the SFCs Act, 1951, the Rajasthan Financial Corporation (RFC) was constituted under a notification on

- (1) 17th January, 1961
- (2) 19th January, 1973
- (3) 17th January, 1955
- (4) 19th January, 1955

150. Under which Section of Company's Act 2013, the UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL), is construed as a Government Company ?

- (1) Section 2(45)
- (2) Section 3

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!

LIMITED
TIME OFFER

Prepp
Your Personal Exam Guide

Prepp+ Subscription

Only (₹999) ₹249/year

500+
Exams

1 Year
Full Access

50,000+
Mock tests

10,000+
Pyp's

Unlock Your Success Today!


LIMITED
TIME OFFER